

संसदीय समाचार

भाग-2

सं.57735]

बृहस्पतिवार, 24 मई, 2018

सं.57735

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (एच एंड एस)

नए सुरक्षित सदस्य लॉग-इन पोर्टल (वर्जन 2.0) की शुरुआत

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सदस्य लॉग-इन पोर्टल की सुविधा, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) ने कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, को अब एक नए सुरक्षित वर्जन के रूप में पुनः क्रियाशील किया जा रहा है और इस पोर्टल को **सदस्य लॉग-इन पोर्टल (वर्जन 2.0)** के नाम से जाना जाएगा और यह <https://mprs.nic.in> पर दिनांक 25 मई, 2018 से प्रभावी रूप से उपलब्ध होगा।

2. नए पोर्टल में सदस्यों की सुरक्षित पहुंच हेतु क्रेडेंशियल सहित लॉग-इन (यूजर- नाम/पासवर्ड और मोबाइल ओटीपी) के लिए द्विस्तरीय प्रमाणीकरण सहित संवर्धित सुरक्षात्मक विशेषताएं होंगी। सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

3. सदस्य लॉग-इन पोर्टल के लिए पुराने यूजर नेम/पासवर्ड अमान्य हो गए हैं और नये एकाउंट्स बनाये जाने हैं जिसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है:

नया एकाउंट पंजीकरण (प्रक्रिया):

सदस्यों को एकाउंट पंजीकरण हेतु विधिवत रूप से हस्ताक्षरित मांग प्रपत्र (जिसके लिए आधिकारिक ई-मेल और मोबाइल नम्बर अनिवार्य है) भेजने की जरूरत है। उसके बाद, एनआईसी दल यूजर एकाउंट बनाएगा और सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर यूजर आईडी भेजेगा।

- प्रथम लॉग-इन पर- सदस्य द्वारा यूजर आईडी और केपचा प्रविष्ट करने के बाद, उनके मुख्य पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- सदस्यों को प्राप्त हुए ओटीपी को प्रविष्ट करना होगा और अपनी पंसद का नया पासवर्ड नियत करना होगा।
- नया पासवर्ड नियत करने के लिए सदस्यों को निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करना चाहिए:
 - i. पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का और अधिकतम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए।
 - ii. कम से कम एक अपर केस एल्फाबेट होना चाहिए।
 - iii. कम से कम एक लोअर केस एल्फाबेट होना चाहिए।
 - iv. कम से कम एक अंक होना चाहिए।
 - v. कम से कम एक विशेष कैरेक्टर (@, #, \$, ~, &) होना चाहिए।

पासवर्ड भूल जाने पर (फॉरगॉट पासवर्ड यूटिलिटी):

यदि कोई सदस्य अपना एकाउंट पासवर्ड भूल गए हैं/गई हैं, तो ऐसी स्थिति में वे निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपना लॉग-इन पासवर्ड बदलने के लिए 'फॉरगॉट पासवर्ड' यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं/सकती हैं:

- i. 'पासवर्ड भूल गए' पर क्लिक करें,
- ii. अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें,
- iii. केपचा प्रविष्ट करें
- iv. पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा;
- v. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को प्रविष्ट करे,

- vi ओटीपी की वैधता सिद्ध हो जाने के बाद, यूज़र को नया पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहा जाएगा।
- vii. नया पासवर्ड पुनः प्रविष्ट करें (कृपया नीचे दिए गए पासवर्ड संबंधी नियमों का पालन करें)
- viii. सदस्य को एक संदेश प्राप्त होगा "आपके एकाउंट का नया पासवर्ड सफलतापूर्वक नियत हो गया है।"
- ix. पोर्टल में लॉग-इन करने के लिए यूज़र नेम और नये पासवर्ड का उपयोग करें।

लॉग-इन आईडी भूलने की स्थिति में:

यदि सदस्य अपना लॉग-इन आईडी भूल जाते/जाती हैं, तो वे अपने आधिकारिक ईमेल आईडी से एक ईमेल भेज सकते/सकती हैं अथवा एन.आई.सी. दल से दूरभाष सं. 23034907 पर सम्पर्क कर सकते/सकती हैं। सदस्य लॉग-इन एकाउंट के लिए पंजीकृत लॉग-इन आईडी सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

पंजीकृत मोबाइल नम्बर में परिवर्तन:

यदि सदस्य अपने सदस्य लॉग-इन पोर्टल के उपयोग हेतु अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर में परिवर्तन करना चाहते/चाहती हैं तो वे पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद "माई एकाउंट" लिंक पर पर क्लिक करें और फिर वे अपना मौजूदा पंजीकृत मोबाइल नम्बर बदलें।

यह नोट किया जाए कि किसी भी स्थिति में कोई भी एन.आई.सी./एन.आई.सी.एस.आई तकनीकी कर्मी किसी संसद सदस्य का पासवर्ड बदलने में सक्षम नहीं होगा।

4. नये एकाउंट पंजीकरण हेतु मांग प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट www.rajyasabhaahindi.nic.in → डाउनलोड → आवेदन प्रपत्र → आई.टी. अनुभाग (एच. एण्ड एस.) प्रपत्र पर उपलब्ध है। मांग प्रपत्र की मुद्रित प्रति पटल कार्यालय (कमरा संख्या 26, संसद भवन), आईटी अनुभाग (एच. एण्ड एस.)

(कमरा संख्या 209, संसदीय सौध) और एनआईसी प्रकोष्ठ (कमरा संख्या 64जी, संसद भवन) से भी प्राप्त किया जा सकता है।

5. किसी परेशानी की स्थिति में/स्पष्टीकरण के लिए सदस्य कृपया कम्प्यूटर केन्द्र, एन आई सी प्रकोष्ठ, 64-जी, संसद भवन, में दूरभाष सं. 23034907/23034829 पर अथवा ई-मेल nic64g@nic.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

देश दीपक वर्मा,
महासचिव।